

SHRI D. P. YADAV: I would like the Hon'ble Member to give some suggestion in this regard so that we can pass it on to the Delhi Administration.

SHRI PRABODH CHANDRA: I wanted to know from the Government whether they have any rules that no new schools are not to be located in the areas where there are already schools within a distance of two or three miles.

SHRI D. P. YADAV: I have already answered his question that it depends on the needs of the locality.

बिहार के मॉडर्न बेकरीज के कारखाने की स्थापना

* 742. श्री रामाबतार शास्त्री : क्या कृषि और सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के रांची शहर में गत अनेक वर्षों से भाइर्न बेकरीज का कारखाना निर्माणाधीन है।

(ख) यदि हा, तो उसको धारम्भ करने में विलम्ब होने के क्या कारण हैं और सरकार का इसको कब तक धारम्भ करने का विचार है।

(ग) क्या बिहार सरकार ने पटना और मुजफ्फरपुर में भाइर्न बेकरीज के कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND

IRRIGATION (SHRI ANNASAHEB P. SHINDE): (a) A unit of Modern Bakeries at Ranchi in Bihar has been under construction for about two years.

(b) There has been some delay in completion of this unit due to delay in receipt of plant and equipments from abroad and completion of civil works. The unit is expected to go into trial production in June, 1976.

(c) The Government of Bihar had proposed to the Company that a unit may be set up at Patna.

(d) The Company had felt that the unit at Ranchi will for the present be able to meet the requirement of bread in Patna and the question of setting up of an additional unit in Patna may be considered later.

श्री रामाबतार शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न के (ग) खंड को देखा जाए जिध में कहा गया है कि क्या बिहार सरकार ने पटना और मुजफ्फरपुर में भाइर्न बेकरीज के कारखाने स्थापित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। तो इन्होंने पटना के बारे में तो जिक्र कर दिया लेकिन मुजफ्फरपुर के बारे में भाइर्न है। इमें भाग्य है कि वहां के इंडस्ट्रीज मिनिस्टर ने अभी हाल में बिहार के पालिथामेंट के मेम्बरो के मामले यह बात रखी कि हम ने सरकार से दोनों जगह भाइर्न बेकरीज के कारखाने खोलने की मांग की है। लेकिन इन में वह नहीं है। तो मंत्री जी ऐसा जवाब क्यों देते हैं ?

इस के अलावा रांची में जो यूनिट खोल रहे हैं उस के लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूँ, जून में रांची यूनिट में उत्पादन का काम शुरू हो जायगा और बिहार के लोगों को भाइर्न बेकरीज की रोटियां मिलनी शुरू होंगी (व्यवधान) . . . मैं यह जानना चाहता

हूँ कि रांची की यूनिट में कितनी रोटियाँ रोख उत्पादित होंगी और रोजाना आप कितन-कितन शहरों में कितने लोगों को उसे देने की व्यवस्था करना चाहते हैं। इस का जवाब आ जाय तब मैं पटना के बारे में सवाल करूँगा।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE:

This is a standard plant with a capacity of 40,000 loaves per day. It may be in a position to meet the immediate requirements because the market also takes some time to develop. But whether it is Patna or North Bihar, we have not closed our mind.

श्री राजाबख्तर खासरी : फिर वहीं जवाब नहीं दिया। रांची के नज़दीक जमशेदपुर है, धनबाद है और दूसरे शहर हैं। 40 हजार रोजाना पैदा कीजिएगा तो फिर उस से पटना को कैसे दीजिएगा। कैसे यह सम्भव हो सकेगा? 40 हजार रोटियाँ क्या उन इलाकों में ही नहीं भिकेगी। स्वयं रांची शहर बहुत विकसित हो रहा है, वही जरूरत पड़ सकती है। कुछ तो आप ने मार्केट का जरूर अन्वेषण किया होगा, उस का जवाब आप ने दिया नहीं। मैं यही जानना चाहता हूँ कि आप की मार्केट की क्या पोजीशन है। तभी हम समझ सकेंगे कि आप पटना को रोटी सपनाई कर सकेंगे या नहीं? इतना तो आप केवल आइ-वाश कर के छोड़ देना चाहते हैं। नहीं कर सकते हैं तो कहिए कि नहीं करेंगे, कर सकते हैं तो कहिए कि करेंगे।

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE:

Originally the decision was to have a medium-sized plant, but after the market survey was made, it was decided to have a larger plant.

SHRI NAWAL KISHORE SINHA SINGH: According to the answer furnished by the minister, it appears

that a unit will be established at Ranchi and then at Patna. These are two areas south of the Ganges. The only unit which can be on the northern side of the Ganges is at Muzaffarpur. May I know whether he will suggest to the Bihar Government that a unit should be set up at Muzaffarpur?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE:
This is a suggestion for action.

SHRI BHAGWAT JHA AZAD:

May I know what is the result of the market survey which has been conducted regarding the requirements of Ranchi and the surrounding complex, by what time the maximum capacity of 40,000 loaves will be reached and how the government propose to carry the bread from Ranchi to Patna? Will it be airlifted?

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE:

Our general experience in other cities has been that if we set up plants with large capacity, the capacity remains unutilised. It depends on the market availability of other foodgrains if rice is available....

SHRI BHAGWAT JHA AZAD: I

do not want a long speech. I only want to know what is the result of the market survey, when the maximum production will be reached and how the bread will be carried from Ranchi to Patna.

SHRI ANNASAHEB P. SHINDE:

Originally a medium-sized plant with a capacity of 15,000 to 20,000 loaves per day was to be established. But the market survey indicated that a larger plant with 40,000 loaves capacity can be established and so a larger plant is being established. There is no difficulty in achieving the maximum capacity immediately after the plant goes into production if the market is there.